



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 अग्रहायण 1935 (श०)
(सं० पटना 885) पटना, बृहस्पतिवार, 5 दिसम्बर 2013

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

2 दिसम्बर 2013

सं० नि० प्रा०/नि० 1-03/2013-**1229**—चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निर्बाधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न **परिशिष्ट-1** में अंकित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट-1 में अंकित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों तथा निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 11.01.2014 (शनिवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-1022 दिनांक 16.09.2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.08.2013 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 08.10.2013 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा किया जा चुका है।

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) स्वावलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर संघ में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-3) में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 16.12.2013 को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न प्रपत्र-2 में विधिमाम्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को संलग्न प्रपत्र-3 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फ़ैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

निर्वाचन देय स्वावलम्बी सहकारी समितियों की सूची :-

क्र० सं०	जिला	प्रखण्ड का नाम	स्वावलम्बी सहकारी समिति का नाम	पता
1	भोजपुर	बड़हरा	एकता नारी शक्ति महिला स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	ग्रा०- केशोपुर, पो०- बड़हरा थाना-बड़हरा, जिला- भोजपुर
2	भोजपुर	शाहपुर	आशा नारी शक्ति महिला स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	ग्रा०+पो०- बरिसवन प्रखण्ड- शाहपुर, थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर

क्र० सं०	जिला	प्रखण्ड का नाम	स्वावलम्बी सहकारी समिति का नाम	पता
3	भोजपुर	तरारी	देव कृषक सेवा स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०,	ग्राम+पो०— देव, थाना— सिकरहटा तरारीद्व जिला— भोजपुर
4	कैमूर	भभुआ	गरीब नवाज कृषक सेवा स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०, भभुआ।	ग्राम+पो०— भभुआ,वार्ड न०— 16
5	कैमूर	मोहनियाँ	माँ तारा चन्डी कृषि एवं विकास सेवा स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	ग्राम+पो०— मोहनियाँ प्रखण्ड— मोहनियाँ
6	कैमूर	मोहनियाँ	माँ मुण्डेश्वरी कृषि एवं विकास सेवा स्वावलम्बी समिति लि०, मोहनियाँ	ग्राम+पो०— मोहनियाँ प्रखण्ड— मोहनियाँ
7	नालन्दा	नगरनौसा	लक्ष्मी कृषक सेवा स्वा०स०स०लि०	पो० एवं थाना नगरनौसा,नालन्दा
8	नालन्दा	चण्डी	बिहार कृषक सेवा स्वा०स०स०लि०	ग्राम—माधोपुर, चंडी, नालन्दा
9	नालन्दा	इसलामपुर	ईसलामपुर कृषक सेवा स्वा०स०स०लि०	मनोरमा भवन, ग्राम—मलिकसराय, पो०—ईसलामपुर, नालन्दा
10	नालन्दा	परवलपुर	कचहरिया कृषक सेवा स्वा०स०स०लि०	ग्राम, पो० एवं थाना—परवलपुर,नालन्दा
11	नालन्दा	विन्द	सुगम नारी शक्ति स्वा०स०स०लि०	ग्राम,पो० एवं थाना—विन्द, नालन्दा
12	मुजफ्फरपुर	बोचहाँ	बोचहाँ लीची उत्पादक विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०,	ग्राम—बोचहाँ मार्केट, पो०—बोचहाँ, थाना— बोचहाँ
13	मुजफ्फरपुर	सकरा	सकरा लीची उत्पादक विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०, सकरा	ग्राम—नवलपुर मिश्रलौया, पो०—सिहो, थाना7 सकरा
14	मुजफ्फरपुर	बन्दरा	खगेश्वरनाथ बन्दरा लीची उत्पादक विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०, बन्दरा	ग्राम+पो०—रतवारा, थाना—पीयर
15	मुजफ्फरपुर	बोचहाँ	माँ वैष्णो कृषक सेवा स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०, बोचहाँ	ग्राम—काशीरामपुर, पो०—सर्फुद्दीनपुर, थाना— बोचहाँ
16	मुजफ्फरपुर	गायघाट	काँटा कृषक सेवा स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०, गायघाट	ग्राम+पो०—काँटा, थाना—गायघाट
17	मुजफ्फरपुर	बन्दरा	रामपुर दयाल कृषक सेवा स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०, रामपुर दयाल, बन्दरा	ग्राम+पो०—रामपुर दयाल, थाना—पीयर, जिला—मुजफ्फरपुर
18	मुजफ्फरपुर	मुरौल	मुरौल लीची उत्पादक विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०, मुरौल	ग्राम+पो०—मुरौल, थाना— सकरा, प्रखंड—मुरौल
19	मुजफ्फरपुर	सकरा	बंगलामुखी कृषक सेवा स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०,	ग्राम+पो०—पिलखी, थाना सकरा
20	वैशाली	गोरौल	जय दुर्गा महिला विकास स्वालम्बी सहकारी समिति लि०, मल्लीकपुरा, वैशाली	ग्राम+पो० — मल्लीकपुरा, थाना— गोरौल जिला— वैशाली
21	वैशाली	गोरौल	जय शिव महिला विकास स्वालम्बी सहकारी समिति लि०, पीरापुर मथुरा	ग्राम+पो० — पीरापुर मथुरा, थाना— गोरौल जिला— वैशाली
22	वैशाली	गोरौल	सरस्वती महिला विकास स्वालम्बी सहकारी समिति लि० , धाने , गोरौल	ग्राम— धाने गोरौल, पो०+प्रखंड— गोरौल, जिला—वैशाली
23	वैशाली	गोरौल	जय हनुमान महिला विकास स्वालम्बी सहकारी समिति लि०, आदरपुर	ग्राम—आदरपुर पो०—कटरमाला गोरौल, जिला— वैशाली

क्र० सं०	जिला	प्रखण्ड का नाम	स्वालम्बी सहकारी समिति का नाम	पता
24	वैशाली	देसरी	प्रगीत नारी शक्ति महिला स्वालंबी सहकारी समिति महुआ रोड, देसरी, वैशाली	ग्राम-पटेल चौक देसरी, जिला-वैशाली
25	वैशाली	राघोपुर	गरिमा नारी शक्ति महिला स्वालंबी सहकारी समिति लि०, राघोपुर वैशाली	ग्राम-राघोपुर जिला-वैशाली
26	वैशाली	जन्दाहा	हरियाली स्वालंबी महिला सहकारी समिति लि०, जन्दाहा वैशाली	ग्राम-जन्दाहा जिला-वैशाली
27	वैशाली	बिदुपुर	वैशाली स्वालंबी सिद्धा महिला सहकारी समिति लि०, बिदुपुर बजार, वैशाली	ग्राम-बिदुपुर जिला-वैशाली
28	शिवहर	तरियानी	नवीन कृषक स्वा० स०स० लि०	ग्राम+पो० माधोपुर
29	मधुबनी	झंझारपुर	आदर्श किसान कृषक सेवा स्वा० स०स० लि०	ग्राम+पो० लोहना
30	मधुबनी	अंधराठाढी	श्री जनसेवा बचत एवं साख स्वा० स०स० लि०	ग्राम +पो० गोनौली
31	समस्तीपुर	समस्तीपुर	किसान कृषक सेवा स्वा० स०स० लि०	मोरदीवा
32	समस्तीपुर	सरायरंजन	कृषक सेवा स्वा० स०स० लि०	जितवारपुर कृम्हिरा
33	समस्तीपुर	कल्याणपुर	हजपुरबा कृषक सेवा स्वा० स०स० लि०	हजपुरबा
34	समस्तीपुर	समस्तीपुर	पोठियागाछी कृषक सेवा स्वा० स०स० लि०	समस्तीपुर
35	समस्तीपुर	सरायरंजन	हरिओम कृषक सेवा स्वा० स०स० लि०	गुढमा
36	किशनगंज	पोठिया	किशनगंज चाय उत्पादन स्वावलम्बी स०स०लि०,	ग्रा०-भावलीगच्छ, पो०-कोईमारी, थाना-पोठिया, जिला-किशनगंज
37	किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज प्रखंड श्रमिक स्वावलम्बी स०स०लि०,	ग्रा०+पो०-बेलवा, थाना+ जिला-किशनगंज
38	किशनगंज	किशनगंज	उपकार कृषक स्वावलम्बी स०स०लि०,	ग्रा०-सिंधीमुनी, पो०-बेलवा थाना+जिला-किशनगंज
39	लखीसराय	सूर्यगढ़ा	श्री गोविन्द कृषक श्रमिक स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	ग्राम+पो०-सहूर, प्रखण्ड- सूर्यगढ़ा, जिला-लखीसराय
40	मुंगेर	सदर,मुंगेर	सेवा औद्योगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, मुंगेर	सुर्कीर्ति भवन, पुरबसराय फाडी नियर वन विभाग, मुंगेर -811201
41	कटिहार	कटिहार	मौ भवानी शिक्षित बेरोजगार श्रमिक स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, कटिहार।	ग्राम इंदिरा नगर ललियाही पो० थाना प्रखंड जिला - कटिहार
42	भागलपुर	जगदीशपुर	दुग्ध विक्रेता कल्याण स्वावलंबी सहकारी समिति लि० तातारपुर	स्टेशन परिसर
43	भागलपुर	जगदीशपुर	बुनकर दस्तकार स्वावलंबी सहकारी समिति लि०	शीला भवन,बिक्रमशीला कोलोनी तिलकामांझी भागलपुर
44	नवादा	नवादा	सर्वोदय नारी शक्ति महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि० नवादा	ग्राम-न्यु एरिया पो० नवादा, थाना - नवादा, जिला - नवादा
45	नवादा	नारदीगंज	उन्नति नारी शक्ति महिला विकास स्वा० सहकारी समिति लि० विष्णुपुरी मियाँ विगहा।	ग्राम - विष्णुपुरी, मियाँविहा थाना- सिरदला, जिला नवादा

क्र० सं०	जिला	प्रखण्ड का नाम	स्वावलम्बी सहकारी समिति का नाम	पता
46	नवादा	हिसुआ	हिसुआ कृषक सेवा स्वा० सहकारी समिति लि०	ग्राम +पो०- हिसुआ, थाना हिसुआ, जिला नवादा
47	नवादा	नारदीगंज	श्री कृष्ण नरहट प्रखण्ड कृषक सेवा स्वा० सहकारी समिति लि०	ग्राम - बरौली, पो०+थाना-नरहट, जिला नवादा
48	औरंगाबाद	बारुण	ग्रामिण बचत एवं साख स्वा० स० लि० विसैनी, बडका गॉव बारुण	ग्राम-विसैनी, बडका गॉव, पो०-इटहट, थाना-रिसियप, जिला- औरंगाबाद
49	औरंगाबाद	दाउदनगर	आर्दश कृषक सेवा स्वावलम्बी स० स० लि०, अन्छा	ग्राम+पो०-अन्छा, प्रखण्ड- दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद
50	औरंगाबाद	दाउदनगर	सुसंगठित कृषक सेवा स्वावलम्बी स० स० लि० संसा, दाउदनगर	ग्राम+पो०-संसा, दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद
51	औरंगाबाद	दाउदनगर	भगवान विगहा कृषक सेवा स्वावलम्बी स० स० लि०, दाउदनगर	ग्राम- भगवान बिगहा, पो०- दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद
52	औरंगाबाद	दाउदनगर	सम्पूर्ण कृषक सेवा स्वावलम्बी स० स० लि०, अरई	ग्राम+पो०-अरई, दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद
53	औरंगाबाद	दाउदनगर	अकोढ़ा पंचायत कृषक सेवा स्वावलम्बी स० स० लि० अकोढ़ा	ग्राम-उमरचक, पो०- दाउदनगर, थाना- दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद
54	औरंगाबाद	ओबरा	अरंडा फल सब्जी सेवा स्वा० स० लि०, अरंडा	ग्राम+पो०- अरंडा, प्रखण्ड- ओबरा, जिला- औरंगाबाद
55	जहानाबाद	जहानाबाद सदर	प्रयत्न नारी शक्ति महिला विकास स्वावलम्बी स०स० लि०	ग्राम-सिकरिया, पोस्ट- भोवर सिकरिया, थाना-जहानाबाद, जिला-जहानाबाद
56	पटना	पटना सदर	सुन्दर नगर गृह निर्माण स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	मो.-शिवपुरी,आजाद भवन, पो.- शिवपुरी, थाना- शास्त्रीनगर, पटना
57	पटना	दुल्हिनबाजार	सिंघाड़ा कृषक सेवा स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०	पो.+ग्राम- सिंघाड़ा, थाना- दुल्हिनबाजार, पटना

परिशिष्ट-2

स्वावलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	16.12.2013 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	31.12.2013 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	02.01.2014 (बृहस्पतिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	03.01.2014 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक

(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	11.01.2014 (शनिवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	11.01.2014 (शनिवार) (अपराह्न 3-4 बजे से)

परिशिष्ट-3

..... स्वाबलम्बी सहकारी समिति

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

(बोर्ड के पदधारकों के निर्वाचन के लिए)

..... स्वाबलम्बी सहकारी समिति, निबंधन संख्या,
पताके बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक को
किया जाना है।

मैंनिर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
उपविधि में यथा संशोधन में वर्णित तथा अधिसूचना में सन्निहित निदेशों के अनुसार पदों का उल्लेख करें।	

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

(स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांकसे दिनांक तक
बजे से बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक कोपर बजे पूर्वाह्न से बजे
(स्थान का नाम)

अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांकको बजे अपराह्न से बजे अपराह्न के
पूर्व तकपर दाखिल की जा सकती है।

(स्थान का नाम)

* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/
पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

[illegible]

कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/ मंत्री/उपाध्यक्ष/ सचिव को छोड़कर)				
कुल (पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या)				
कुल (महिला अभ्यर्थियों की संख्या)				
कुल अभ्यर्थियों की संख्या				

निर्वाचन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर।

प्रपत्र-3

विभिन्न सहकारी/ स्वावलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची

जिला : प्रखंड :

मतदान करने
वाले
मतदाताओं
की संख्या :

निर्वाचन की
तिथि : DD/ MM/ YYYY

कुल मतदाताओं की
संख्या :

समिति का नाम :

पद	नाम	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति
अध्यक्ष				
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव				

* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

बोर्ड/ प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का नाम					अभ्युक्ति
अनु० जाति/ अनु० जनजाति कोटि	पिछड़ा वर्ग कोटि	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि	सामान्य कोटि		
कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/ मंत्री/उपाध्यक्ष/ सचिव को छोड़कर)					
कुल (निर्वाचित पुरुष सदस्यों की संख्या)					

कुल (निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या)					
कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या					

निर्वाचन पदाधिकारी का
हस्ताक्षर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 885-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>